

विद्याभवन , बालिका विद्यापीठ ,  
लकखीसराय रूपम कुमारी वर्ग-सप्तम् विषय-  
हिन्दी-हिन्दी ✨ दिनांक- 25-6-20

॥ अध्ययन सामग्री ॥

बच्चों , मित्रता निभाने की तीन शर्तों हैं –

- मित्र के मिलने पर उसका आदर करो ।
- पाठ पीछे उसकी प्रशंसा करो ।
- मुसीबत आने पर उसकी मदद करें ।

कल की कक्षा में दिए गए प्रश्नाभ्यास  
को आपने जरूर पूरा कर लिया होगा ।  
आज की कक्षा में हम

।. **विस्मयादिबोधक** को पढ़ेंगे ---  
--. विस्मयमें , हर्ष , शोक , खुशी, उदासी  
, घृणा जैसे मनोभाव को प्रकट करने वाले  
शब्द विस्मयादिबोधक कहलाते हैं ।

जैसे –

- वाह! तुमने कम तो कमाल कर दिया ।
- अरे ! तुम अभी से आ गए ।
- शाबाश !इसी तरह तरक्की करते रहो ।
- छि! पड़ोसी के घर के सामने गंदगी  
फेकते हो ।
- बहुत खूब !तुम्हारे जैसे नागरिकों से देश  
तरक्की करेगा ।

- ओह ! उसे भी इसी वक्त आना था ।
- वाह ! कितना सुंदर दृश्य है ।
- आओ ! अब चलते हैं ।

इन वाक्यों में हम गौर करेंगे तो पाएँगे  
कि बहुत सारे वाक्य में ! यह -चिन्ह  
लगा है जो विस्मयादिबोधक का प्रतीत -  
चिन्ह है । विस्मयादिबोधक के शब्द को  
वाक्य के शुरुआत में प्रयोग कर !

-चिन्ह लगा दिया जाता है । अब हम  
उदाहरण सहित भेद को देखेंगे ----

हर्षबोधक- वाह ,अहा ,शाबाश ,धन्य  
आदि । आश्चर्य बोधक – ओह , एँ ,,क्या  
,हैं इत्यादि । शोकबोधक - हाय , उफ़

,ओह आदि । घृणावाचक – छिः, थू  
आदि ।

स्वीकृति बोधक – जी , बहुत अच्छा ,हाँ -  
हाँ आदि ।

अनुमोदन बोधक – ठीक ,अच्छा ।

संबोधन बोधक – अरे ,ओ ,हे ।

पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और संबंधित  
प्रश्नों के उत्तर दें ।

इनमें से कौन प्रशंसा बोधक शब्द कौन -  
सा है ?

राम -राम ! ,सुंदर ! उफ!, अहो!

विस्मयादिबोधक के संबंध में कौन -सा विकल्प सही है ?

क). यह तीव्र मनोभावों का बोध कराता है । ख ) विचारों का आदान -प्रदान करता है ।.

विस्मयादिबोधक किसे कहते हैं ?

निम्नलिखित में उचित विस्मयादिबोधक भरिए -.

- ----- तुमने यह क्या किया ।
- ----- गंदगी फिर फैली दी ।
- -
- ---+इसी तरह आगे पढ़ते रहो ।.
- ----- तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं. ।

- ----- अब भी सँभल जाओ ।
  - ----- कितना सुहावना मौसम है ।
- वह तो लुट गया ।

इसे समझ कर बनाएँ । फिर एक नए विषय-  
वस्तु के साथ मिलेंगे ।

